

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र Variable Energy Cyclotron Centre
१/एएफ, बिधान नगर/ 1/AF, Bidhan Nagar,
कोलकाता - ७०० ०६४ / Kolkata - 700 064.

नि.सू.सं.: वीईसीसी/एनआईटी/ईएनपीडी/सीटीएस/पेटी वर्क्स/

तारीख: ०८/०६/२०२३

Tender Notice No: VECC/NIT/ENPD/CTS/PETTY WORKS/ **B-22/**

Dated:08/06/2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख, एमईजी, वीईसी केन्द्र, १/ए.एफ., बिधान नगर, कोलकाता-७०००६४ योग्य संविदाकारों से “आरआईबी बे से 1.7 टी चुंबक को चाय-पेंट्री के पास क्रायो-इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रैप लैब, 1/एएफ, बिधान नगर, कोलकाता – 700064, में स्थानांतरित करना है” कार्यों हेतु दिनांक 19/06/2023 को अपराह्न 2.30 PM तक मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करते हैं जिन्हें दिनांक 21/06/2023 को अपराह्न 3.00 PM खोला जायेगा।

Head, CTS, VEC Centre, 1/AF, Bidhannagar, Kolkata-700064 on behalf of President of India invites SEALED QUOTATIONS up to 2.30 PM on 19/06/2023 from eligible contractors for the work of “Shifting of 1.7 T magnet from RIB bay to Cryo-Electronics and Trap Lab near Tea-pantry at 1/AF, Bidhan Nagar, Kolkata – 700064..” which will be opened at 3:00 PM on 21/06/2023.


अनुमानित लागत / Estimated Cost : Rs. 28,320.00

बयाना राशि / Earnest Money Deposit : शून्य / NIL

निविदा कागजातों की लागत / Cost of Tender Documents : शून्य / NIL

निविदा कागजात लिखित आवेदन पर 09/06/2023 तथा 19/06/2023 के बीच में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इसे उनके विवेकानुसार जारी किया जाएगा। कार्य की समाप्ति का समय कार्य के आदेश रसीद करने की तारीख से 30 दिन तक।

Tender documents can be received from office of undersigned between 09/06/2023 and 19/06/2023 on written application and will be issued at his discretion. Job completion time is 30 days from date of receipt of work order.


Bidhan Chandra Mandal
Executive Engineer
MES, MEG/VECC
For and on behalf of President of India
बिधान चंद्र मंडल / Executive Engineer
कार्यकारी इंजीनियर / Executive Engineer
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre,
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
भारत सरकार / Government of India
कोलकाता - 700064

Tender documents issued to:

M/s _____

Address _____

Trade Licence No. _____ valid upto _____ date _____

PAN _____ GST No. _____ Issuing Bank and Branch: _____

Tender documents issued by:

Dr. Arindam Kr. Sikdar, SO/E

EMD details:

DD No. _____

Name of the work: VECC, DAE, Kolkata Shifting of 1.7 T magnet from RIB bay to Cryo-Electronics and Trap Lab near Tea-pantry at I/AF, Bidhan Nagar, Kolkata – 700064.

SCHEDULE OF QUANTITY WITH RATE

Sl.No.	Description	Unit	Rate		Qty	Amount	
			Rs.	Ps.		Rs.	Ps.
01.	Shifting of Magnet with weight about 4 Tonne using Jack and special trolley roller, crane, wooden sleeper and other tools and placing at Cryo-Electronics and Trap Lab, VECC. Hiring Charge of Crane, jack, wooden sleeper and all required tools, all the essential lifting tackles and helper for the crane operator to be provided by the vendor. Shifting of magnet from RIB bay to Cryo-Electronics and Trap Lab near tea-pantry and placement of magnet in proper orientation to be executed without damaging any of the VECC property. The coolant supply assembly connected with magnet body will be opened before shifting and fixed as earlier by the vendor after magnet is placed in the Cryo-Electronics and Trap Lab. The vendor will be responsible for supplying and arranging all the other necessary manpower, ceiling rose, D-shackle, etc. as required within his scope of this job.	Lump sump			One Job		
	Total- (Rupees Inclusive of all costs and taxes				A		

Signature with Date:

Name of the firm:

Rubber Stamp and Seal: